



## कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक-12.11.2022

### थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त विजय कुमार गुप्ता गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0512/2022 धारा 332/353/323/504/506/427 भादवि व 3A/3B/4 उ0प्र0 चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधि0 2013 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विजय कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता निवासी डी/26 डाक्टर कालोनी, टकटकपुर, थाना कैण्ट, वाराणसी हाल पता-लेन नं0 9 प्लाट नं0 60 भक्तिनगर कालोनी, थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी को पागलखाना के बगल में केनरा बैंक मोड के पास से आज दिनांक-12.11.2022 को समय 13.45 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**घटना का विवरण-** दिनांक-11.11.22 को वादी मुकदमा श्री शिव प्रताप पाण्डेय (सेवा कर्मी) पं0 दीनदयाल चिकित्सालय ने अभियुक्त विजय कुमार गुप्ता व अन्य द्वारा दवा वितरण काउण्टर के पास खड़े होकर लाईन लगवाते समय अकारण ही उन्हें गाली-गुप्ता देने व मना करने पर मारने-पीटने तथा श्री अभिमन्यू व डा0 पी0के0 सिंह द्वारा बीच बचाव करने पर अभियुक्तगण द्वारा डा0 पीके सिंह का ओटीपी रजिस्टर फाड़ देने व जान माल की धमकी देने, जिससे अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल पैदा होने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दिया, जिसके आधार पर थाना कैण्ट में मु0अ0सं0-0512/2022 धारा 332/353/323/504/506/427 भादवि व 3A/3B/4 उ0प्र0 चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अधि0 2013 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 गंगा प्रकाश यादव द्वारा संपादित की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विजय कुमार गुप्ता पुत्र स्व० रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता निवासी डी/26 डाक्टर कालोनी, टकटकपुर, थाना कैण्ट, वाराणसी हाल पता-लेन नं० 9 प्लॉट नं० 60 भक्तिनगर कालोनी, थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी, उम्र करीब 31 वर्ष ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ०नि० गंगा प्रकाश यादव थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।
2. का० जितेन्द्र कुमार चौधरी थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी